DLF LIMITED

DLF Gateway Tower, R Block, DLF City Phase - III, Gurugram - 122 002, Haryana (India) Tel.:+91-124-4769000



25th January 2021

The General Manager	The Vice-President
Dept. of Corporate Services	National Stock Exchange of India
BSE Limited	Limited
P.J. Tower, Dalal Street,	Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Mumbai – 400 001	Bandra(E), Mumbai – 400 051

Sub: Publication of Notice of Board Meeting

Dear Sir,

In compliance with Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, kindly find enclosed herewith Notice of Board Meeting published in Newspaper(s).

This is for your kind information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully, for DLF Limited

R. P. Punjani Company Secretary

Encl. As above

For any clarifications, please contact:-

1. Mr. R. P. Punjani - 09810655115/ punjani-rp@dlf.in

2. Mr. Raju Paul - 09999333687/ paul-raju@dlf.in

22.66

Telecom infra firms incur ₹2,500-crore loss under GST regime so far; ₹625 cr more loss likely: TAIPA

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, January 22

TELECOM **INFRASTRUC-TURE COMPANIES** are likely to incur a loss of around ₹625 crore under the current GST norms, which do not provide input tax credit to the players in the segment, according to the industry body Taipa.

In a letter to the department of telecommunications (DoT) on Friday, the Tower and Infrastructure Providers Association (Taipa) shared estimates that the industry has to incur a loss of ₹1.25-₹1.5 lakh per tower.

"During the past 4-5 years, the Industry has already lost Rs 2,500 crore of ITC (input tax credit) so far. Going forward, the demand for telecom towers is likely to cross 50,000 towers on account of 5G, etc, which will lead to an additional loss of ₹625 crore to the industry," Taipa said in the letter.

The GST regime was tailormade to prevent cascading of the taxation regime and, accordingly, had a provision of input tax credit on the telecom towers in November 2016, it added.

The Taipa also said the telecom towers were later exempted from the definition of "plant and machinery" in 2017, which deprived its infrastructure providers from availing the ITC against the GST paid on telecom towers. "With the annual bud-

getary exercise likely to conclude soon, we request your urgent support in taking up this matter with the Ministry of Finance if not taken up earlier," Taipa director general T R Dua said in the letter.

He added that the extension of ITC to telecom towers would provide a muchneeded momentum to the Digital India programme and assist in creation of resilient telecom infrastructure in the country.

Taipa, whose members include companies like Indus Towers and ATC, said it raised the matter with Telecom Secretary Anshu Prakash on January 6, so that it can be taken up with the finance ministry prior to the finalisation of the annual Budget.

CBI takes over probe into mysterious death of Yes Bank V-P

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, January 22

THE CENTRAL BUREAU of Investigation has taken over the probe into the mysterious death of a Yes Bank vice-president from Gurgaon whose body was found in Delhi's Rohini area last year, officials said on Friday.

Dheeraj Ahlawat had allegedly gone missing during a stroll with his friend in Sector 46, Gurgaon on August 5, 2020, where he was spotted last by his servant, they said.

When he did not return home, his father started a desperate search calling relatives and friends who might have information about his whereabouts but to no avail, the officials said.

Next day, he approached the

local police with the complaint that his 38-year old son, who was working at Yes Bank, has not returned home, they said. On August 7, Dheeraj's

body was found near a canal to Haiderpur water treatment plant in Sector 16, Rohini, the officials said. He was identified by a rakhi

tied by her sister, they added. Dheeraj's father had alleged that some unidentified persons abducted his son and later killed him, the officials said.

The Haryana government had sought a CBI investigation into the case and referred it to the Centre on October 17 last year.

on the basis of Centre"s notification dated January 6, 2021, the officials said.

DLF LIMITED Regd. Office: Shopping Mall, 3rd Floor, Arjun Marg, Phase-I, DLF City, Gurugram - 122 002 (Haryana) Tel.: +91-124-4334200 CIN: L70101HR1963PLC002484 Website: www.dlf.in; Email: investor-relations@dlf.in

DLF BUILDING INDIA

(R. P. Punjani)

Company Secretary

NOTICE

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 29" January, 2021 to consider and approve, inter alia. Un-audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter and nine months ended 31" December, 2020. The information contained in this Notice is available on the Company's website

i.e., http://www.dlf.in/board-meeting-notice and on the Stock Exchange websites i.e., www.nseindia.com and www.bseindia.com. For DLF LIMITED

Gurugram 22.01.2021 acceptance of advertising

IMPORTANT

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

RELIANCE

HOME FINANCE

A RELIANCE CAPITAL COMPANY

Rs. in Million, except per equity share data

Extract from the Unaudited Financial Results of Reliance Home Finance Limited for the guarter and nine months ended December 31, 2020 (₹ in crore, except per share data)

SI. No.	Particulars	Quarter ended 31-Dec-20 Unaudited	Nine months ended 31-Dec-20 Unaudited	Quarter ended 31-Dec-19 Unaudited
1	Total Income from Operations	173.96	663.44	433.46
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Item)	(514.31)	(1,629.07)	(107.00)
3	Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, Exceptional and / or Extraordinary Item)	(339.55)	(1,075.29)	(73.52)
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(339.49)	(1,075.13)	(73.57)
5	Equity Share Capital	485.06	485.06	485.06
6	Earnings Per Share (Basic & Diluted (Face Value of ₹10/- each)) (not annualised)	23,062	0.0000000	5 50 - 50 -
	(i) Basic (₹)*	(7.00)	(22.16)	(1.50)
	(ii) Diluted (₹)*	(7.00)	(22.16)	(1.50)

The above is an extract of the detailed format of the quarter ended Financial Results filed with the Stock Exchanges on January 22, 2021 under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the Company's website i.e. www.reliancehomefinance.com and on the website of the Stock Exchange(s) i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com

January 22, 2021

Reliance Home Finance Limited

CIN: L67190MH2008PLC183216

Regd. Office: The Ruby, 11th Floor, North-West Wing

Plot No. 29, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai 400 028 Tel.: +91 22 6838 8100, Fax: +91 22 6838 8360

E-mail: rhfl.investor@relianceada.com, Website: www.reliancehomefinance.com

SBiocon KTEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED AND STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND MINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2001

Particulars		3 months ended 31.12.2020	9 months ended 31.12.2020	3 months ended 31.12.2019
	EDES GORVINOS AND SE	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total income from operations	18,510	52,671	17,168
II	Net profit before tax, exceptional items and non-controlling interest from continuing operations	2,363	7,113	3,183
JIL	Net profit before tax and non-controlling interest from continuing operations	2,363	7,113	3,183
IV	Profit after tax and non-controlling interest from continuing operations	1,694	4,967	2,060
٧	Loss from discontinuing operation	(8)	(94)	(32)
VI	Total comprehensive income for the period attributable to shareholders [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	1,895	5,636	2,096
VII	Paid-up equity share capital [Face value of Rs. 5 each]	6,000	6,000	6,000
VIII	Reserve [Excluding Revaluation Reserve] as shown in the unaudited balance sheet		66,996	
IX	Earnings per share [of Rs. 5 each] (for continuing and discontinuing operations)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)
- 23	(a) Basic	1,42	4.11	1.71
	(b) Diluted	1.40	4.07	1.71
1.1	Key standalone financial information		3500000	(Rs. in Million)
		3 months anded	0 months anded	2 months anded

(a) basic	1,746	94.00	1.7.5
(b) Diluted	1.40	4.07	1.71
Key standalone financial information		9550112	(Rs. in Million)
Particulars	3 months ended 31.12.2020	9 months ended 31.12.2020	3 months ended 31.12.2019
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
Continuing operations		8	8
Total income from operations	4,561	15,368	5,013
Profit before tax	458	2,725	1,028
Profit after tax	330	2,128	1,207
Discontinued operations			
Profit before tax		(24)	117
Profit after tax			(40)

The unaudited standalone and consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2020 in respect of Biocon Limited ('the Company') have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on January 21, 2021. The above results have been subjected to limited review by the statutory auditors of the Company. The reports of the statutory auditors are unqualified.

These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

The above is an extract of the detailed format of unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited Financial Results are available on the Stock

SWARAJ ENGINES LIMITED

CIN: L50210PB1985PLC006473

Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.biocon.com.

Regd. Office: Phase IV, Industrial Area, S.A.S. Nagar (Mohali), Punjab - 160 055 Tel: 0172-2271620-27, Fax: 0172-2272731,

Email: selinvestor@swarajenterprise.com, Website: www.swarajenterprise.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE **QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2020**

S. No.	Particulars	Quarter Ended 31.12.2020	Nine Months Ended 31.12.2020	Quarter Ended 31.12.2019
	100=8019000V03=0	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total Income from Operations	27,239	68,166	17,007
2	Net Profit for the period (before tax and exceptional items)	3,363	8,078	1,733
3	Net Profit for the period before tax (after exceptional items)	3,363	8,078	1,733
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional items)	2,502	5,998	1,289
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,502	5,998	1,289
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value ₹10/-)	1,214	1,214	1,213
7	Other Equity		-	
8	Earning Per Share (of ₹10 each) (not annualized)			
	- Basic	₹20.61	₹49.43	₹10.62
	- Diluted	₹20.59	₹49.38	₹10.61

NOTES:

- 1. The financial results for the guarter and nine months ended 31st December, 2020 were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors in their meeting held on 22^{tot} January, 2021. The Statutory Auditors of the Company has conducted a Limited Review of the said financial results.
- 2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange Websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com, and on the Company's website www.swarajenterprise.com.

for and on behalf of the Board of Directors

SUDHIR MANKAD Chairman

GUJARAT ENERGY TRANSMISSION CORPORATION LTD. 158 H O. Sardar Patel Vidyut Bhavan, Race Course, Vadodara - 390 007

e-TENDER NOTICE INVITING TENDERS OF GETCO CORPORATE OFFICE, VADODARA GETCO: www.getcogujarat.com Dept-GOG: http://guj-epd.gov.in Tender Notice No. ACE:Proc:TN-17:2020-2021

[A] PROCUREMENT: (1) ACE(Proc)/E-2816/ACSR Panther, ACSR Zebra & AL-59 Conductor/2021-22 (2) ACE(Proc)/E-2815/III/VCB/2021-22 (3) ACE(Proc)/E-2809/I/66KV to 220KV Tower material/2021-22 (4) ACE(Proc.)/II/E-2812/SRI/ 2021-22 (5) ACE(Proc.)/II/E-2817/BPI/2021 22 (6) ACE(Proc.)/II/E-2822/GI Earth wire 7/3.15 mm/2021-22 (7) ACE(Proc)/I/E-2810/11 KV & 66 KV S/S Structure/2021-22 (8) ACE(Proc)/E-2821/III/Isolator/2021-22 (9) ACE(Proc.)/E-2811/Hardware & Accessories/ 2021-22 (10) ACE(Proc)/E-2823/III/SF6 Bkr/2021-22 (11) ACE(Proc)/E-2820/66KV XLPE & 6.6KV PVC / 2021-22

[B] LINE: GETCO/TR-II/TL/220kV/S&E/2499: Supply, Erection, Testing & Commissioning of 220kV D/C Barejadi - Ahmedabad TSS (NHSRCL) Line with ACSR Zebra Conductor with OPGW Cable & FOTE - 7.10 kM & change over work of 220kV D/C Pirana-Barejadi Line with AL-59 Conductor - 1.10 kM on

[B1] LINE: GETCO/TR-II/TL/220kV/S&E/2503: Supply, Erection, Testing & Commissioning of 220kV LILO of one ckt. of 220kV D/C Hadala - Sartanpar Line at Ghiyavad S/s on D/C & M/C Tower with AL-59 Conductor with OPGW Cable on turnkey basis under Kishan Suryoday Yojana

IC1 S/S: GETCO/EPC/220KV Dhuvaran Ext/185: Supply, Erection, Testing and commissioning of 220 KV equipments, & materials on EPC basis excluding civil works for 02Nos. of 220KV Feeder bays at 220KV Dhuvaran TPS S/S. [C1] S/S: GETCO/EPC/220KV Ghiyavad/192: Supply, Erection, Testing and

commissioning of 220 KV & 66kV equipments, & materials on EPC basis excluding civil works for 220KV Ghiyavad Substation to be operated from [C2] S/S: GETCO/TURNKEY/220KV UGC RANASAN-GANDHINAGAR /193 Supply, laying, testing and commissioning of 220KV cable system on turnkey

basis for shifting of 220kv D/C Ranasan- PGCIL lines from 220kv Ranasan s/s Gantry to Loc. No. 60 for M/s AUDA under deposit work [C3] S/S: GETCO/TURNKEY/220KV UGC RANASAN-PGCIL /194: Supply. laying, testing and commissioning of 220KV cable system on turnkey basis for

shifting of 220kv D/C Ranasan- PGCIL lines from 220kv Ranasan s/s Gantry to Loc. No. 60 for M/s AUDA under deposit work [C4] S/S: GETCO/EPC/220KV Patkhilori/195: Supply, Erection, Testing and commissioning of 220 KV & 66kV equipments, & materials on EPC basis excluding civil works for 220KV Patkhilori Substation to be operated from

220KV Gomta S/S. Above Tender are available on web-site www.gseb.com & www.getco gujarat.com (for view and download only) & https://getco.nprocure.com (For view, download and on line tender submission)

Note: Bidders are requested to be in touch with our website till opening of the Tender. "Energy Saved is Energy Generated" Addl. Chief Engineer (Procurement)

SALE NOTICE UNDER IBC, 2016 M/s. SERVOMAX INDIA PRIVATE LIMITED (In Liquidation) Regd Office: # Plot No.16,17& 18, IDA Phase-II, Cherlapally, Hyderabad, Telangana, 500051, India

ing part of Liquidation Estate are for sale bythe Liquidator. The Sale will be done by the undersigne

П	rough the E-Auction platform: https://bankauctions.in (with unlimited extr	ension of 5 minutes each)
0	Asset Description	Reserve price Rs. In Crores
1	Company as a whole (As going concern) basis*	27.24
-	(OR)	

Commercial Building at "MERIDIAN PLAZA" in the premises bearing Municipal

No. 6-3-853/1, 6-3-854 & 6-3-B54/A situated at Ameerpet Hyderabad: a. Unit Nos. 2-A, 2-B, 2-C, 2-D, first floor, admeasuring undivided share of Land 92.84 Sq.Yds (out of 3975 Sq.Yds). Built up area is 3504 Sft with Common area & Parking. b. Unit Nos. 5-A & 5-B, fourth floor, admeasuring undivided share of Land 28 Sq.Yds. Built up area of 1057 Sft with Common area & Parking & Unit Nos. 2.45 6-A, 6-B, 6-C, 6-D fourth floor admeasuring undivided share of Land 95.08 Sq.Yds with built up area of 3588 Sft with Common area & Parking. Industrial land (7158.30 Sq.Yds) and building (excluding plant & machinery & Inventories

14.90 at Plot Nos.16, 17 & 18 admeasuring situated at Phase -II, IDA Cherlapally, Hyderabad Industrial Land (6000 Sq.feets) and Building at Bruhat Banglore MahanagarPalika (BBMP 4.38 Katha No.240/400/08 situated at Hoody Village, K.R.Puram Hobli, Bangalore East Taluk. 5 Servomax Brand (Registered with Trade Mark Department) 6 Machinery, Equipment, Inventory, Semi finished stock and Stores at Cherlapally 1.86 Hyderabad, Inventory items at mangalagiri, Plant & Machinery at Peddapuram All other Assets of the Company including Credentials, Debtors and

other receivables/assets along with carry forward loss of the Company

if eligible under IT Act excluding cash and bank balances

E Auction timings on 4th February 2021: Item2(a) | Item 2(b) | Item 3 | Item 4 | Item 5 | Item 6 | Item 7 09-10 am 10-11 am 11-12 noon 12-1 PM 1-2 PM 2-3 PM 3-4 PM 4-5 PM . Interested applicants may refer to the COMPLETE E-AUCTION PROCESS INFORMATION DOCUMENT containing details of terms and conditions of online E-Auction, E-Auction Bid form, Eligibility Criteria, Declaration by Bidders, EMD

or through E Mail: servorp@gmail.com or madhucs1@gmail.com The Liquidator have right to accept or cancel or extend or modify, etc any terms and condition of E-Auction at any time. He has right to reject any of the bid without giving any reasons. 3. *Irrespective of outcome of NCLAT, Delhi order with respect to trademark, the bidder(s) has to buy

requirement etc., available on M/s. Foreclosure India's website: https://bankauctions.ir

4. **Confirmation of sale of trade mark subject to the outcome of NCLAT, Delhi only. 5. EMD (i.e10% of reserve price) & Documents Submission deadline is 05:00 PM IST on 02nd February 2021 and E Auction will be conducted from 9 am till 5 PM IST on 4th February 2021 6. E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and

"WHATEVER THERE IS BASIS" only. Date: 23.01.2021 Sd/- Madhusudhan Rao Gonugunta, Liquidator, Cell: 9177715558 Place: Hvderabad IBBI Reg No.: IBBI/IPA-001/IP-P00181/2017-18/10360



KANCHI KARPOORAM LIMITED

CIN: L30006TN1992PLC022109

Registered Office: Parandur Road, Enathur Village, Karaipettai Post, Kanchipuram, Tamil Nadu - 631552, India Corporate Office: No.1 Barnaby Avenue, Barnaby Road, Kilpauk, Chennai, Tamil Nadu - 600010, India Tel. No.: +91 044 2640 1914-16 | Email: secretarial@kklgroup.in | Website: www.kklgroup.in Contact Person: Mr. J. R. Vishnu Varthan, Company Secretary and Compliance Officer.

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF KANCHI KARPOORAM LIMITED

This post buyback public announcement ("Post Buyback Public Announcement") is being made pursuant to Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the

Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 for the time being in force ("Buyback Regulations"). This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated November 20, 2020 and the Letter of Offer dated December 18, 2020 ("LOF"). Capitalized terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meaning as assigned to them in the LOF. 1. THE BUYBACK

1.1 Kanchi Karpooram Limited ("Company") had announced a buyback of 2,20,000 (Two Lacs Twenty Thousand) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10 each ("Equity Shares") of the Company ("Buyback") at a price of ₹ 405 (Rupees Four Hundred Five Only) per Equity Share, payable in cash, for an aggregate amount of ₹ 8,91,00,000 (Rupees Eight Crores Ninety One Lacs only) ("Buyback Offer Size") from the Eligible Shareholders holding Equity Shares as on Friday, December 4, 2020 (the "Record Date") excluding the transaction costs viz. brokerage, applicable taxes such as securities transaction tax, goods and service tax, stamp duty, etc. from all the existing shareholders / beneficial owners of Equity Shares, on a proportionate basis, through the tender offer method. 1.2 The Buyback Offer Size constituted 9.79% of the aggregate paid-up share capital and free reserves as per the audited financial statements of the Company for the

financial year ended March 31, 2020 respectively, in accordance with section 68(2)(c) of the Companies Act, 2013 and the Buyback Regulations 1.3 The Company adopted the tender offer method for the purpose of Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares

through Stock Exchange" notified by the Securities and Exchange Board of India vide its circular CIR / CFD / POLICYCELL / 1 / 2015 dated April 13, 2015 read with circular no CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016. For the purposes of the Buyback, BSE Limited was the designated stock exchange. The tendering period for the Buyback Offer opened from Thursday, December 31, 2020 and closed on Wednesday, January 13, 2021.

Details of Buyback

The Company has completed buyback process and has accepted a total of 20,529 Shares at a price of ₹ 405/- per share.

2.2 The total amount utilized in the Buyback was ₹ 83,14,245 (Rupees Eighty Three Lakhs Fourteen Thousand Two Hundred Forty Five only) excluding the transaction costs viz. brokerage, applicable taxes such as securities transaction tax, goods and service tax, stamp duty, etc.

2.3 The Registrar to the Buyback considered a total of 140 valid bids for 20,529 Equity Shares in response to the Buyback, which is approximately 0.093 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of valid bids received/considered by the Registrar to the Buyback are set out below:

% response [a]/[b] Total shares tendered No. of shares reserved in Buyback Valid Applications Particulars Reserved category for Small Shareholders 40252 0.13 135 20475 General category of other shareholders 179748 11.39 140 20529 9.33 220000 2.4 All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the LOF. The communication of acceptance

Company or the depositories) on January 21, 2021. 2.5 The settlement of all valid bids was completed by the Indian Clearing Corporation Limited ("Clearing Corporation") on January 21, 2021. Clearing Corporation has made direct funds payout to Eligible Shareholders who's Equity Shares have been accepted under the Buyback. If Eligible Shareholders' bank account details were

rejection has been dispatched by the Registrar to the Buyback, via email, to the relevant Eligible Shareholders (who have their email IDs registered with the

not available or if the fund transfer instruction were rejected by Reserve Bank of India/relevant bank, due to any reason, then such funds were transferred to the concerned Seller Members/custodians for onward transfer to their respective shareholders. 2.6 Demat Equity Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company's demat escrow account on January 21, 2021. There were no unaccepted

dematerialized Equity Shares. 20,000 Equity Shares were tendered in physical form.

The extinguishment of 20529 Equity Shares accepted under the Buyback is currently under process and will be completed in accordance with the Buyback Regulations on or before January 28, 2021.

Capital Structure and Shareholding Pattern 3.1 The capital structure of the Company before and after the completion of the Buyback is set out below:-

		Pre Buyback*	Post Buyback**		
Particulars	No. of Equity Shares	Aggregate Value at Face Number of ₹ 10 Each (in ₹ lacs)	No. of Equity Shares	Aggregate Value at Face Number of ₹ 10 Each (in ₹)	
Authorized share capital	70,00,000	700	70,00,000	700	
Issued, subscribed and paid up share capital	43,64,420	436.44	43,43,891	434.39	

* As on the date of Letter of Offer

** Subject to extinguishment of 20529 Equity Shares

3.2 Details of Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back under the Buyback are as mentioned below:

Sr. No.	Name of the Shareholder	No. of Equity Shares accepted under the Buy Back		* Equity Shares Accepted as a % of the total post Buyback Equity Shares
1	BALAMURUGAN M	10000	48.71	0.23
2	PATIL PRAMOD SHIVALAL	5	0.02	0.00
3	MALLIGA MANIKANNAN	10000	48.71	0.23
4	SHYAMPRAKASH PANDHARINATH SHRIYAN	20	0.10	0.00
5	BHAVNA ASHOK SHAH	475	2.31	0.01
6	VENKATASATYA VITAL KUMAR MATHA	1	0.00	0.00
7	KHURSHID MOHIYUDDIN RANGOONWALA	18	0.09	0.00
8	MAQSOOD AHMED	10	0.05	0.00

* Subject to extinguishment of 20529 Equity Shares

3.3 The Shareholding Pattern of the Company, pre and post Buy Back is as under:

	*Pre- B	uyback	**Post Buyback		
Category	No. of Equity Shares	% of the existing Equity Share Capital	No. of Equity Shares	% to the existing Equity Share capital	
Promoter and Promoter Group	20,37,220	46.68	20,37,220	46.90	
Public	23,27,200	53.32	23,06,671	53.10	
Total	43,64,420	100.00	43,43,891	100.00	

** Subject to extinguishment of 20529 Equity Shares MANAGER TO THE BUYBACK OFFER

SAFFRON e energising ideas

SAFFRON CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED

605, Sixth Floor, Centre Point, Andheri-Kurla Road,

J. B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400 059 Tel. No.: +91 22 4082 0914/915 | Fax No.: +91 22 4082 0999

Email id: buybacks@saffronadvisor.com | Website: www.saffronadvisor.com Investor grievance: investorgrievance@saffronadvisor.com

SEBI Registration Number: INM000011211 Contact Person: Amit Wagle / Gaurav Khandelwal

Terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meaning as assigned in the PA and LOF. For and on behalf of the Board of Directors of

Kanchi Karpooram Limited

Suresh Shah Dipesh Shah **Managing Director** Managing Director (DIN: 01659809) (DIN: 01659930) Place: Chennai

J. R. Vishnu Varthan Company Secretary and Compliance Officer (ICSI Membership Number: 43251)

Date: January 22, 2021

financialexp.epap.in

The CBI took over the case

Place: S.A.S. Nagar (Mohali)

Date : 22" January, 2021

The Board of Directors of the Company accepts responsibility for all the information contained in this Post Buyback Public Announcement.

New Delhi

शिवमोगा में हुए धमाके में छह लोगों की मौत

मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने दिए जांच के आदेश, दो हिरासत में

मुंबई में पेट्रोल 92 रुपए के पार, डीजल सर्वकालिक उच्च स्तर पर

75.63 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई, जो

अब तक का सबसे उच्च स्तर है। मुंबई में

भी डीजल की कीमत 82.40 रुपए के

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, दिनांक 29

जनवरी, 2021 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2020 को

समाप्त तिमाही और नौमाही के अनां केक्षित वित्तीय परिणामों (स्टेंडअलोन और समेकित) पर

इस सूचना में निहित जानकारी कंपनी की वेबसाइट, http://www.dlf.in/board-meeting-notice तथा

FSCORTS

एस्कॉर्ट्स फाइनेंस लिमिटेड

(CIN: L65910CH1987PLC033652)

पंजी. कार्यालयः एससीओ-64-65, तीसरा तल, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़-160 017

फोन: 0129-2564116

ई-मेल: escortsfinance@escorts.co.in | वेबसाइट: www.escortsfinance.com

सूचना

(भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अधिनियम 29 के साथ अधिनियम

47 के अंतर्गते (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ)

यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार

1 फरवेरी, 2021 को परस्पर विचार कर स्वीकृति देने व 31 दिसंबर 2020 को

समाप्त हुई तिमाही और 9 महीने के लिये केंपनी अनधिकृत वित्तीय परिणामों

(स्टैंडअलोन एन्ड कंसोलिडेटेड) को संज्ञान में लेने के लिये आयोजित की जा रही

है। वित्तीय फैंसले कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के

इसके अलावा उक्त जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.escortsfinance.com पर

भी उपलब्ध है और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com से भी प्राप्त

शैक्षिक योग्यता

और अनुभव

एस.एस.सी. (10 वीं) के साथ

आईटीआई या वीढियो /

ऑडियो / इलेक्ट्रॉनिक्स /

साल का अनुभव।

इलेक्ट्रीशियन ट्रेड/एयर-

कंडीशनिंग में समकक्ष प्रमाण

पत्र और संबंधित क्षेत्र में 2

मैटिक या समकक्ष समान

संगठनों में कम से कम

वर्ष के कार्यकाल का

प्राथमिकता दी जाएगी।

अनमव वाले उम्मीदवारों क

टॉक एक्सकेंज वेबसाइटो www.nseindia.com एवं www.bseindia.com. पर भी उपलब्ध है।

पंजीकत कार्यालयः शॉपिंग मॉल, तीसरी मंजिल, अर्जुन मार्ग,

फेस–Ì, डीएलएफ सिटी, गुरूग्राम – 122 002 (हरियाणा)

वेबसाइट: www.dif.in; ई—मेल : investor-relations@dif.in

फोनः +91-124-4334200

गुरुग्राम

22.01.2021

की जा सकती है।

स्थानः फरीदाबाद

सकता है। पदों का विवरण इस प्रकार है:--

(अनारक्षित)

(अनारक्षित)

*एमटीएस पदों हेतु रिक्तिता पुनर्ग्रहणाधिकार रिक्तिता है।

प्रोफार्मा के साथ जमा किया जाना चाहिए।

पत्राचार और स्थायी पता लिखना आवश्यक होगा।

उसकी नियक्ति को रदद कर दिया जायेगा।

सतर्कता संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी

सेवाओं को समाप्त किया जाएगा

मानी जाएगी।

पद का

टेक्नीशियन

*मल्टी

दिनांक: जनवरी 22, 2021

शैक्षिक संचार संकाय

आई.यए.सी कैम्परा, अरूणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली-110067

फोन नं.: 011-24126418-19-20 फैक्स: 011-24126416, वेबसाइट: www.cec.nic.in

रिक्ति सूचना

नियुक्ति । (२) मल्टी टारिकंग रटाफ (एक पद—नियमित आधार) (अनारक्षित) वेतन मैट्रिक्स रतर—1 में ₹ 18,000 — 56,900 / — सीधी भर्ती

के आधार पर नियुक्ति। चयनित होने पर अभ्यार्थी को सीईसी कार्यालय, दिल्ली अथवा ईएमआरसी के रुडकी केन्द्र में तैनात किया जा

वेतन मैट्रिक्स

₹ 25,500 -

₹18,000 -

56,900 / -

आवेदन पत्र को सी.ई.सी. की वेबसाइट www.cec.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

अंतिम तिथि के बाद प्राप्त या अधूरे आवेदन पत्र को खारिज कर दिया जायेगा।

आवेदन, आवेदित पदनाम उल्लेखित करके, स्वप्रमाणित प्रमाणपत्रों के साथ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, शैक्षिक संचार संकाय, आई.यू.ए

सी. कैंपस, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली—110067 को 22.02.2021 तक या उससे पहले मेजे। आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा में फोटो

सहित और सभी साक्ष्यों के साथ पूरा होना चाहिए। इसके लिए केवल शॉर्टलिस्ट किये गए उम्मीदवारों का रिकल टेस्ट / साक्षात्कार लिया

जायेगा। सभी उदेश्य के लिए नियुवित्त अधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्य होगा। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की पूछताछ व

आवेदन पत्र विधिवत स्वयं द्वारा सत्यापित सभी प्रसांगिक प्रमाण पत्रों / प्रशंसापत्र अर्थात, योग्यता / अनुभव / जन्म तिथि / निर्धारित

आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 22.02.2021 है। अंतिम तिथि को अवकाश होने की दशा मे अगले कार्य दिवस को समापन की

आवेदन "मुख्य प्रशासनिक अधिकारी", शैक्षिक संचार संकाय, आई.यू.ए.सी परिसर, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली-110067

को बंद लिफाफे में आवेदन पदनाम लिख कर भेजा जाना चाहिए। किसी भी तरह की डाक देशे के लिए सी.ई.सी.

जिम्मेदार नहीं होगा। उमीदवार को पिन कोड संख्या, टेलीफोन नंबर, सेल-फोन नंबर और ई-मेल आईडी के साथ अपना पूरा

विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद निर्धारित अंतिम तिथि ही आयु के सम्बन्ध में सभी उमीदवारों की पात्रता सुनिश्चित करने की तिथि

उमीदवारों का, विज्ञापन के अनुसार स्वयं अपनी पात्रता, योग्यता, अनुमव आदि का आकलन करने और वांछित जानकारी

दरतावेजों और अन्य सहायक सामग्री के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र प्रेषित करने का दायित्व होगा। यदि भविष्य मे नियुक्त

होने पर भी या किसी भी समय, यह पाया जाता है कि निर्धारित योग्यता, अनुभव आदि के कारण आवेदक पात्र नहीं है, किसी भी

कारण से जिसका साक्षात्कार के समय पता नहीं चल सका, उसी समय उसके द्वारा सत्यापित धारा के अनुसार उसकी नियुक्ति को

निरस्त किया जायेगा। समान्यतः भर्ती नियमों से संबंधित और विशेषतया किसी भी पद की पात्रता के सम्बन्ध में अस्पष्टता होने पर

यदि किसी भी समय दस्तावेज / प्रमाण पत्र आदि को नियक्ति के किसी भी स्तर पर या नियक्ति के बाद ब्रुटा / नकली / गलत या

जानबुझ कर गलत किया गया पाया जाता है, तो दस्तावेज को सरसरी तीर पर खारिज कर दिया जाएगा और इस दुराचार के लिए

उम्मीदवार के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जा सकती है, जिसमें उसकी उम्मीदवारी की अरवीकृति भी शामिल है, नियुक्त होने पर भी,

भर्ती की प्रक्रिया के दौरान या नियक्ति होने पर भी किसी भी समय यह विदित होता है कि तथ्यात्मक सूचना को जानवृद्ध कर दवाया

गया है या आवेदन या अन्य दस्तावेजों में भ्रामक बयान / सूचना या जाति, शिक्षा, योग्यता, अनुभव, जन्म तिथि या मूल निवास पन्न

इत्यादि में निहित जानकारी से छंड़छाड़ की गयी है तो उसकी उम्मीदवारी को उसी समय से निरस्त किया जाएगा तथा सभी

पहले से ही सेवारत उम्मीदवार को उचित प्रणाली के माध्यम से अपना आवेदन पत्र जमा करना होगा। यद्वपि आवेदन की अग्रिम

प्रति पहले भेजनी होगी, उसे अपने कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा,

उसका साक्षात्कार नहीं होगा। ऐसे आवेदक को अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र प्रस्तृत करना होगा कि उसके विरुद्ध

कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित / विचारचीन नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र के साथ या साक्षरकार के समय

। आवेदन संख्या अधिक प्राप्त होने की रिथति मे सी.ई.सी. को साक्षात्कार ऐतु उच्च अंकों के आधार पर अपेक्षित योग्यता वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने का अधिकार होगा । कंचल अपेक्षित अनुभव होने पर आवंदक की साक्षात्कार हेत् दावंदारी

बंगलुरु, 22 जनवरी (भाषा)

कर्नाटक के शिवमोगा जिले में विस्फोट की घटना के लिए दो लोगो को हिरासत में लिया गया है। इस विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए

पुलिस ने शुक्रवार को यह बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों में पत्थर तोड़ने की सुविधा से जुड़ा एक ठेकेदार शामिल है जहां जिलेटिन की छड़ों से लदे ट्रक में विस्फोट हुआ था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने अपने गृह जिले शिवमोगा के हनासोड़ में पत्थर तोड़ने की सुविधा में हुए धमाके में लोगों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं और इसके पीछे जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की

उन्होंने कहा कि वह गुरुवार रात से वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हैं और बचाव अभियान शुरू करने के लिए दलों को रवाना किया गया

पत्थर तोडने की सुविधा में रात साढे दस बजे के लगभग धमाका हुआ जिससे न केवल शिवमोगा बल्कि पास के चिक्कमगलुरु, दावणगेरे और उत्तर कन्नड जिलों में भी झटके महसूस किए गए। धमाके से ऐसा लगा जैसे भूकम्प आ गया हो। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विस्फोट इतना तेज था कि घरों में दरारें आ गईं, खिड़कियों के शीशे टूट गए।

है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, 'शोक संतप्त परिजन के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हं।'

वहीं अधिकारियों ने मृतकों की संख्या बढने की आशंका को खारिज नहीं किया। शिवमोगा के उपायुक्त के बी शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा, 'ऐसा सुनने में आ रहा है कि कम से कम दस से पंद्रह लोगों की मौत हुई है। पुलिस की जांच पूरी होने का इंतजार करना होगा।'

पत्थर तोड़ने की सुविधा में रात साढ़े दस बजे के लगभग धमाका हुआ जिससे न केवल शिवमोगा बल्कि पास के चिक्कमगलरु, दावणगेरे और उत्तर कन्नड जिलों में भी झटके महसूस किए गए।

सप्ताह 18 और 19 जनवरी को भी पेट्रोल

और डीजल की कीमतों में 25-25 पैसे प्रति

टैल्ब्रॉस इंजीनियरिंग लि.

CIN: L74210HR1986PLC033018

पंजीकृत कार्यालयः 74-75-76, सेक्टर-6,

फरीदाबाद, हरियाणा- 121006 (हरियाणा) Ph: 0129-4284300, Fax: 0129-4061541

Email: cs@talbrosaxles.com

Website: www.talbrosaxles.com

एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के

निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 1 फरवरी,

2021 को आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों

के साथ सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन

अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के

अनुपालन में 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तीसरी

तिमाही/ नौमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित

वित्तीय परिणामों पर विचार. अनमोदन कर उसे

टैल्ब्रॉस इंजीनियरिंग लिमिटेड के लिये

अभिलेख में लिये जाएंगे।

स्थान:फरीदाबाद

तिथि: 21.01.2021

लीटर की बढ़ोतरी की गई थी।

BUILDING INDIA

कृते डी एल एफ लिमिटेड

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

एस्कॉर्ट्स फाइनेंस लिमिटेड हेत्

विकी चौहान

कंपनी सचिव

(विज्ञापन संख्या 1/2021)

की अर्हताएं

सीधी मर्ती

•

आवेदन की आय्

सीमा (अंतिम तिथि

30 वर्ष

के समय

25 वर्ष

(आर. पी. पूजानी

कम्पनी सचिव

निजी स्कूलों की फीस में कटौती की मांग वाली याचिका खारिज

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 22 जनवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश देने की फरियाद की गई थी कि निजी स्कूलों की फीस में छूट उपलब्ध कराकर वह अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करे। खासकर गौतमबुद्धनगर जिले के स्कूलों में। न्यायमूर्ति अशोक भुषण, न्यायमुर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमुर्ति एमआर शाह के एक पीठ ने याचिकाकर्तो से कहा–आपकी फरियाद बेहद अस्पष्ट है। हम ऐसे मामले में कोई आदेश नहीं दे सकते।

जजों ने कहा कि यह हर स्कुल का अलग-अलग फैसला है और सरकार के निर्णय पर निर्भर करता है। इस पर याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि अदालत को फीस कम करने के मामले में कुछ तो करना चाहिए क्योंकि फरवरी में बच्चों की परीक्षा है। इस पर जजों ने कहा कि याचिकाकर्ता अंतरिम राहत के लिए हाईकोर्ट में फरियाद कर सकता है। इसके बाद याचिका को खारिज कर दिया। याचिका अनिमेश खन्ना ने दायर की थी। उनका कहना था कि महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली व कुछ दूसरे राज्यों ने स्कूली फीस में कुछ न कुछ राहत दी है।

टुडे मकेन्डाइज प्राईवेट लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: एफ-26, प्रथम तल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, डीएल 110001 ईमेलः todaymerchandisepvtltd@gmail.com CIN: U74999DL2010PTC210696

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से महाराष्ट्र राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकशन के लिये विज्ञापन

केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक), उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कम्पनी अधिनियम 2013, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (6) (ए) के मामले में

टुडे मर्केन्डाइज प्राईवेट लिमिटेड, पंजी. कार्यालयः एफ-26, प्रथम तल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, डीएल

एतदृद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "महाराष्ट्र राज्य में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए शुक्रवार 22 जनवरी, 2021 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ-पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें: एफ-26, प्रथम तल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, डीएल 110001

कृते एवं के लिये टुडे मर्केन्डाइज प्राईवेट लिमिटेड

स्थानः दिल्ली तिथि: 23 जनवरी, 2021

हस्ता./ कम्पनी सचिव सदस्यता सं.: ए 54281

प्राधिकत अधिकारी, केनरा बैंक

आकंशा गोधा

शाखाः आरएएच फरीदाबाद, एससीओ 11, सेक्टर 16, फरीदाबाद-121002 (हरि.) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये धारा 13(4) के अंतर्गत)

A Canara Bank केनरा बैंक

अंकुश जिन्दल

कम्पनी सचिव

एम.नं.ए 26017

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत केनरा बैंक शाखाः आरएएच फरीदाबाद, एससीओ 11, सेक्टर 16, फरीदाबाद-121002 (हरि.) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति

हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित तिथि को जारी कर ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित तिथि

को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों

का किसी भी तरह का व्यवसाय यहां नीचे वर्णित राशि के अतिरिक्त नीचे वर्णित खाता के समक्ष वर्णित अन्य खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के लिये केनरा बैंक, शाखाः आरएएच फरीदाबाद, एससीओ 11, सेक्टर 16, फरीदाबाद-121002 (हरि.) के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

ऋणधारक ⁄गारंटर का	अचल सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि	मांग सूचना
नाम एवं पता			तिथि
ऋणधारकः	श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, पुत्र श्री रमेश प्रसाद मिश्रा तथा राजेश कुमार मिश्रा, पुत्र	मांग सूचना तिथि 2.12.2019 के	2.12.2019
प्रदीप कुमार मिश्रा	श्री रमेश प्रसाद मिश्रा के स्वामित्व में मकान सं. 128 (पुराना) जो खसरा नं.	अनुसार आगे के ब्याज एवं लागत	
पुत्र श्री रमेश प्रसाद मिश्रा	33//3 का भाग है, मौजा सारण, तहसील फरीदाबाद वर्तमान में मकान सं. ई-	के साथ रु. 19,68,263.30	
एवं	1672/1, डबुआ कॉलोनी, फरीदाबाद, माप 100 वर्ग यार्ड्स की आवासीय	(रुपये उन्नीस लाख अड़सठ	कब्जा की तिथि
राजेश कुमार मिश्रा	सम्पत्ति। परिसर की चौहदी इस प्रकार हैः उत्तरः रोड (15' चौड़ा रास्ता), दक्षिणः	हजार दो सौ तिड़ेसठ एवं पैसे	19.01.2021
पुत्र श्री रमेश प्रसाद मिश्रा	अन्य सम्पत्ति, पूर्वः एच. नं. 1673 (सेल डीड के अनुसार प्लॉट नं. 127),	तीस मात्र)	
	पश्चिमः एच. नं. 1672 (बिक्री प्रलेख के अनुसार प्लॉट नं. 129)		
ऋणधारकः	श्री पुष्पेन्दर, पुत्र श्री रोहताश सिंह तथा पूजा ठाकुर पत्नी पुष्पेन्दर के स्वामित्व	मांग सूचना तिथि 2.12.2019 के	मांग सूचना
पुष्पेन्दर	तथा कब्जे में आवासीय सम्पत्ति फ्लैट नं./प्लॉट नं. ए-17, माप 105 वर्ग यार्ड्स	अनुसार आगे के ब्याज एवं लागत	तिथि
पुत्र श्री रोहताश सिंह	(21'45') प्लॉट नं. ए 17 में, नया मकान नं. 787, जवाहर कॉलोनी, माप 300	के साथ रु. 25,81,409/- (रुपये	2.12.2019
एवं	वर्ग यार्ड्स जो खसरा नं. 57/5 का भाग है जो मौजा सारण, तहसील एवं जिला	पच्चीस लाख इक्यासी हजार चार	
पूजा ठाकुर	फरीदाबाद में स्थित है। परिसर की चौहद्दी इस प्रकार है: उत्तर: राजकुमार की	सौ नौ मात्र)	कब्जा की तिथि
पत्नी पुष्पेन्दर	सम्पत्ति, दक्षिणः रोहताश सिंह की सम्पत्ति, पूर्वः 15 फीट चौड़ा रोड, पश्चिमः		20.01.2021
_	प्लॉट का शेष भाग		
100			

SRF LIMITED SRF

तिथि: 23.01.2021, स्थान: फरीदाबाद

Registered Office: The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, Second Floor, Mayur Place, Noida Link Road, Mayur Vihar Phase I Extn. Delhi - 110091 Tel. No. (Regd. Office): (+91-11) 49482870 | Fax: (+91-11) 49482900

E-mail: info@srf.com | Website: www.srf.com | CIN - L18101DL1970PLC005197 Statement of Deviation / Variation in utilisation of funds raised

Name of listed entity	SRF Limited
Mode of Fund Raising	QIP Issue
Date of Raising Funds	17-Oct-20
Amount Raised	Rs. 750 Crores (approx
Report filed for Quarter ended	31st December, 2020
Monitoring Agency	Not Applicable
Monitoring Agency Name, if applicable	Not Applicable
Is there a Deviation / Variation in use of funds raised	No
If yes, whether the same is pursuant to change in terms of a contract or objects, which was approved by the shareholders	Not Applicable
If Yes, Date of shareholder Approval	Not Applicable
Explanation for the Deviation / Variation	Not Applicable
Comments of the Audit Committee after review	Approved by the Committee
Comments of the auditors, if any Objects for which funds have been raised and	No comments

Comments of the auditors, if any Objection where there has been a deviation, in			e been raised	d and	No comments	
Original Object	Modified Object, if any	7	Modified allocation, if any	Funds Utilised (Rs Cr)	Amount of Deviation/ Variation for the quarter according to applicable object	Remarks if any
 funding suitable organic and inorganic growth opportunities, 						0.5
(ii) ongoing capital expenditure,			,			V)
(iii) other long term and short terms requirements,						
(iv) pre-payment and/or repayment of outstanding borrowings,		750	0	570.27	NIL	NIL
(v) general corporate purpose,	8 8		č	97 3		90
(vi) Incidental expenses in relation to QIP,			3	11.87		8
(vii)Temporary investments,	2 (3	6		167.86		38
(vii)any other purposes, as may be permissible under applicable law and approved by our Board or its duly constituted committee	(i			2		

Deviation or variation could mean:

(a) Deviation in the objects or purposes for which the funds have been raised or

(c) Change in terms of a contract referred to in the fund raising document i.e. prospectus, letter of offer, etc

Rajat Lakhanpal

SOMANY CERAMICS LIMITED CIN: L40200WB1968PLC224116

Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001 Phone No.: 033-22487406/5913 corporateaffairs@somanyceramics.com Website: www.somanyceramics.com Email:

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, the 4th February, 2021 to inter alia, consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31st

The information contained in this notice is also available on the website of the Company, at www.somanyceramics.com and also on the website of the Stock Exchanges viz. BSE Limited- www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited-www.nseindia.com.

> For Somany Ceramics Limited Ambrish Julka

Place: Noiua 22nd January 2021

GM (Legal) and Company Secretary

कार्बो इंडस्ट्रीयल होल्डिंग्स लिमिटेड पंजीकत कार्यालयः फ्लैट नंबर 702. 7 वीं मंजिल, कंचनजंगा बिल्डिंग, 18-बाराखंभा रोड, नई दिल्ली -110001 CIN: L65993DL1981PLC300851. दरभाषः + 91-11-23310001/5. ई-मेलः hcsIndl@yahoo.co.in, वेबसाइटः www.carboindustrialltd.com

सदस्यों को सुचना

सदस्यों को एतदुद्वारा सुचना दी जाती है कि कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ई-वोटिंग सहित पोस्टल बैलेट द्वारा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009 के प्रावधानों (संशोधन) विनियम, 2019 और लाग कानुन ("प्रस्तावित प्रस्ताव") के प्रावधानों अनुसार कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयर्स के प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए शेयरधारकों की मंजरी लेने के प्रस्ताव के संबंध में शक्रवार, 15 जनवरी, 2021 ("कट-ऑप तारीख") को जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर में है. उन सदस्यों को कोरियर के माध्यम से 22 जनवरी. 2021 को स्वयं प्रेषित प्री पेड लिफाफे और पोस्टल बैलट फॉर्म के साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 के साथ पिठत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के तहत पोस्टल बैलेट सूचना को भेजने का कार्य पूरा कर लिया है। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार, कंपनी ने कंपनी के सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान

करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड की सेवाएं नियुक्त की हैं। ई-वोटिंग सहित पोस्टल बैलट के माध्यम से वोटिंग 24 जनवरी, 2021 को शुरू होगा। नोटिस और पोस्टल बैलेट फॉर्म कंपनी की वेबसाइर www.carboindustrialltd.com या एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है कंपनी के निदेशक के बोर्ड ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलट को संचालित करने के लिए "संवीक्षक" के रूप में श्री विवेक गुप्ता, पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट को नियुक्त किया है। सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे भौतिक पोस्टल बैलेट फॉर्म को विधिवत पूर्ण और हस्ताक्षरित करके सोमवार, 22 फरवरी, 2021 को 5:00 बजे तक या उससे पहले संवीक्षक तक पहुंचा दें वोटिंग की सुविधा रविवार, 24 जनवरी, 2021 को सुबह 9:00 बजे से सोमवार, 22 फरवरी, 2021 से 05:00 बजे तक उपलब् होगी। उक्त तिथि के बाद प्राप्त सभी पोस्टल बैलेट फॉर्म/इलेक्ट्रॉनिक वोटों को यह समझा जाएगा कि ऐसे सदस्य से उत्तर प्रा नहीं हुआ है। ई-वोटिंग सविधा के माध्यम से सदस्य वोट देने के साथ-साथ भौतिक वोट के माध्यम से अपना वोट भेजने वे

मामले में. केवल ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोट को संवीक्षक द्वारा माना जाएगा। पोस्टल बैलट का परिणाम मंगलवार, 23 फरवरी, 2021 को कंपनी के पंजीकत कार्यालय में घोषित किया जाएगा। संवीक्षव रिपोर्ट के साथ घोषित किए गए परिणाम कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.carboindustrialltd.com पर उपलब्ध होंगे और उन्हें कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को भी सुचित किया जाएगा जहाँ कंपनी के शेयर सुचीबद्ध हैं। ई-वोटिंग सहित पोस्टल बैलट द्वारा मतदान के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया hcsIndl@yahoo.co.in पर एक ई-मेल भेजें।

कृते कार्बो इंडस्ट्रीयल होल्डिंग्स लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली दिनांक: 23.01.2021

DIN:02726637

नीरज जैन



इंडिया. साकेत शाखा के चार्ज के अधीन होगा।

साकेत शाखा वाईडब्ल्यए होटल बिल्डिंग. 21-एवैन्य साकेत. नई दिल्ली-110017

[नियम-8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया, साकेत शाखा के प्राधिकत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभित हित (प्रवर्त्तन) नियमावली. 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 26.6.2019 जारी कर ऋणधारक श्री मैथ्य करियन, पत्र श्री केएम, करियन एवं श्रीमती मुदला करियन, पत्नी मैथ्यु करियन एवं गारन्टर श्रीमती गिलीं थ्रेसिअम्मा जोस को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 5,32,987.30 (रुपए पांच लाख बत्तीस हजार नौ सौ सत्तासी एवं पैसे तीस मात्र) तथा ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 19 जनवरी, 2021 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु 5,32,987.30 तथा 01.05.2019 से ब्याज एवं अन्य चार्जेज की राशि के लिए बैंक ऑफ

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री मैथ्यु कुरियन एवं श्रीमती मुदुला कुरियन के स्वामित्व में प्रथम तल, फ्लैट नं. 105, सम्पत्ति सं. 884-ए/1, खसरा नं. 1151/3 मिन, वार्ड नं. 6, मेहरौली, नई दिल्ली-110030 की सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज।

तिथि: 19.01.2021 स्थानः दिल्ली

Sr. | Particulars

(प्राधिकृत अधिकारी) बैंक ऑफ इंडिया, साकेत शाखा

Quarter

CORAL NEWSPRINTS LTD. Regd. Office : A-138, 1st Floor, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi-110092

CIN NO: L22219DL1992PLC048398, E-mail: cnpl_5000@rediffmail.com Website: www.coralnewsprintslimited.com, Tel.: 22010998 Annexure XI

Abstract of Unaudited Financial Result (Standalone) for the quarter & year ended on 31.12.2020 (Rs. in lacs

Figures 31.12.2020 31.03.2020 Aaudited Unaudited 237.26 1079.27 Total income from operations (net) 67.80 Net Profit / (Loss) from ordinary (229.67)(26.83)activities after tax (16.44)3. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items) (229.67)(26.83)(16.44)**Equity Share Capital** 505.27 505.27 505.27 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year) (1,141.44)(999.01 (851.40)Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each (4.55)(0.53)(0.27)(0.27)(4.55)(0.53)Diluted Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each Basic: (0.27)(4.55)(0.53)Diluted (0.27)(4.55)(0.53)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financia Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (URL of the filings)

> By Order of the Board For Coral Newsprints Ltd

Dated : 22.01.2021 (Pushpendra P. S. Chauhan) Place : Delhi Whole Time Director & CEO, (DIN No: 01871760)

यूनियन वैक 🕼 Union Bank

टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, इंडस्ट्रियल एरिया, पटेल नगर, देहरादून (उत्तराखण्ड)

कब्जा सूचना (अधल सम्पत्ति के लिए नियम 8(1))

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रभावीकरण अधिनियम 2002 (2002 का 3) के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पटेल नगर शाखा, टेलीफोन एक्सचेज के सामने, इंडस्ट्रियल एरिया, पटेल नगर, जिला– देहरादून, उत्तराखण्ड– 248001 से सम्बन्धित श्री जुनेद हसन पुत्र श्री महमूदुल हसन (ऋणी) 68, राजीव नगर, कंडोली (उत्तराखण्ड)। श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री राम चन्द्र (सह—ऋणी), मकान नं0 75 / 13, न्यू कैंट रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड), (वर्गीकृत एनपीएन दिनांक 31.01.2020) के सामने दर्शाये गए खातें में उनके नामों के सामने दी गई तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि **रू**0 **19,63,023 / –** (रूपये उन्नीस लाख तिरसठ हजार, तेईस) एवं ब्याज + अन्य खर्चे अदा करने के लिए मांग नोटिस नं0 RODDN:CRLD:S-822:20 दिनांक 14.02.2020 को जारी

ऋणियों द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर ऋणी / ऋणियों और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति का कब्जा उनके खाते के सामने दी गई दिनांक 18.01.2021 पर ले लिया है।

ऋणियों / गारन्टरों को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन—देन न करें। इन सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन-देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पटेल नगर शाखा, टेलीफोन एक्सचेज के सामने, इंडस्ट्रियल एरिया, पटेल नगर, जिला- देहरादून, उत्तराखण्ड-248001 को देय राशि **₹**0 21,08,998.00 /- (रूपये इक्कीस लाख आठ हजार, नौ सौ अठानवे) दिनांक 31.12.2020 से ब्याज + अन्य खचे के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही

किया जा सकता है। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभृति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

बंधक आवासीय मकान माप क्षेत्रफल 73.56 वर्ग मीटर, स्थित म्युनिसिपल नं0 358, मौजा–चुकुवाला (निकट पुराना एफसीआई ऑफिस, ओमकार रोड), परगना– केन्द्रीय दून, तहसील एवं जिला– देहरादून (उत्तराखण्ड), सम्पत्ति स्वामी श्री जुनेद हसन। सीमायें:– पूर्व: 23 फीट चौडा रास्ता, पश्चिम: श्रीमती अंजू थापा की सम्पत्ति, उत्तर: श्री एन०के० उस्मानी की सम्पत्ति, दक्षिणः श्री पी०एस० गहलोत की सम्पत्ति।

दिनांक- 18.01.2021 अधिकृत अधिकारी स्थान- देहरादुन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

कीमत 85.45 रुपए प्रति लीटर और मुंबई में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। इस नई दिल्ली, 22 जनवरी (भाषा)। 92.04 रुपए हो गई। इस सप्ताह तीसरी बार दरों में वृद्धि के बाद राष्ट्रीय राजधानी में डीजल की कीमत

पहंच गई। सरकारी तेल विपणन कंपनियों की एक अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25-

की गई। इससे दिल्ली में पेटोल की

पत्रकार कप्पन को बात मा से कराएगी उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार ने ने कप्पन की गिरफ्तारी पर प्रश्न उठाने वाली केरल श्रमजीवी

पत्रकार संघ की याचिका को सुनवाई के लिए अन्य विविध मामलों लिए निर्धारित दिन वास्ते

निश्चित किया माू ख्या न्यायाधीश शरद अरविंद की बोबडे अध्यक्षता वाले एक पीठ पत्रकार संघ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की इन दलीलों का संज्ञान लिया कि कप्पन की अचेत

को देखना हैं। चाहती सिब्बल ने कहा-कृपया करके उन्हें (कप्पन की मां को) वीडियो कॉन्फ्रेंस के विकल्प की मंजूरी दीजिए, ताकि वह जीते जी अपने बेटे को देख सकें।

एक आवेदन दिया हमें अन्यमाति दी जिए। सुनवाई दौरान सिब्बल की दलीलों पर पीठ ने कहा-हम अनुमति

12 किसी भी कारण से विज्ञापित पद को भरने या न भरने का अधिकार सी.ई.सी. के पास है। 13 सी.ई.सी. बिना कारण बताए किसी भी समय आंशिक या पूर्ण रूप से विज्ञापन को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

पेट्रोल की कीमत शुक्रवार को मुंबई में 92 रुपए प्रति लीटर को पार कर गयी, जबकि डीजल की कीमत सर्वकालिक उच्च स्तर पर

25 पैसे प्रति लीटर की बढोतरी

जनसत्ता ब्यरो नई दिल्ली, 22 जनवरी।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह जेल में कैद पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और केरल में रह रहीं उनकी मां के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस कराने की संभावना पर विचार करेगी। कप्पन को दिल्ली से हाथरस (उत्तर प्रदेश) जाते समय गिरफ्तार किया गया था, जहां एक दलित युवती के साथ सामृहिक बलात्कार हुआ था और बाद में इलाज के दौरान पीडिता की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट

शैक्षिक संचार संकाय (सीईसी), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के तहत एक निकाय, में (1) टेक्नीशियन–(एक पद–नियमित आधार) (अनारक्षित) वेतन मैट्रिक्स स्तर-४ ह 25.500 – 81,100/- सीधी मर्ती के आधार पर/प्रतिनियृक्ति/अवशोषण के आधार पर

अवस्था में हैं और अपने बेटे

देंगे। पीठ में

न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रह्मण्यम भी शामिल थे।

14 सी.ई.सी. बिना कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

स्थानांतरित / पोस्टिंग किया जा सकता है।

15 स्थानांतरण देयता - सामान्य नीति के अनुरूप चयनित अधिकारी को सी.ई.सी. दिल्ली या ई.एम.आर.सी. केंद्र रुड़की में

16 किसी भी प्रकार की छूट भारत सरकार के नियमों के अंतर्गत देय होगी।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, सीईसी

(b) Deviation in the amount of funds actually utilized as against what was originally disclosed or

For SRF Limited

Place: Gurugram Date: 21/01/2021 VP (Corporate Compliance) & Company Secretary

www.readwhere.com